



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

30 कार्तिक 1936 (श0)
(सं0 पटना 949) पटना, शुक्रवार, 21 नवम्बर 2014

निर्वाचन विभाग

अधिसूचना

17 नवम्बर 2014

सं0 E.L.1-002/2012-98—बिहार राज्य के विधान-सभा निर्वाचन क्षेत्रों के लिए निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी की नियुक्ति से संबंधित भारत निर्वाचन आयोग, नई दिल्ली की अधिसूचना संख्या 429/बिहार/2014(1) दिनांक 3 नवम्बर, 2014 सर्वसाधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित की जाती है।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
हुसैन यूसुफ रिजवी,
अपर सचिव।

भारत निर्वाचन आयोग

अधिसूचना

निर्वाचन सदन, अशोक रोड, नई दिल्ली-110001 दिनांक 3 नवम्बर, 2014 / 12 कार्तिक, 1936 (शक)

सं० 429/बिहार/2014 (1):- लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 (1950 का 43) की धारा 13ख की उप-धारा (1) के उपबंधों के अनुसरण में तथा समय-समय पर यथासंशोधित दिनांक 28 अप्रैल, 2010 की अपनी अधिसूचना संख्या 429/बिहार/2010(1) व समय समय पर यथा संशोधित अधिसूचना का अधिक्रमण करते हुए भारत निर्वाचन आयोग एतद्वारा बिहार सरकार के परामर्श से, नीचे की सारणी के स्तम्भ 2 में विनिर्दिष्ट सरकार के अधिकारी को उनके सामने उक्त सारणी के स्तम्भ 1 में यथाविनिर्दिष्ट बिहार राज्य के विधान-सभा निर्वाचन क्षेत्रों के लिए निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी के रूप में पदाभिहित करता है :-

सारणी

विधान-सभा निर्वाचन क्षेत्र का क्रमांक एवं नाम	निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी
1	2
1- वाल्मीकिनगर	निदेशक, लेखा प्रशासन एवं स्व0 नियोजन, जिला ग्रामीण विकास अभिकरण, बेतिया
2- रामनगर (अ0जा0)	भूमि सुधार उप-समाहर्ता, बगहा
3- नरकटियागंज	अनुमंडल पदाधिकारी, नरकटियागंज
4- बगहा	अनुमंडल पदाधिकारी, बगहा
5- लौरिया	अपर समाहर्ता, विभागीय जाँच, पश्चिम चम्पारण, बेतिया
6- नौतन	भूमि सुधार उप-समाहर्ता, बेतिया
7- चनपटिया	उप-विकास आयुक्त, पश्चिम चम्पारण, बेतिया
8- बेतिया	अनुमंडल पदाधिकारी, बेतिया
9- सिकटा	भूमि सुधार उप-समाहर्ता, नरकटियागंज
10- रक्सौल	अनुमंडल पदाधिकारी, रक्सौल
11- सुगौली	अनुमंडल पदाधिकारी, मोतिहारी सदर
12- नरकटिया	भूमि सुधार उप-समाहर्ता, रक्सौल
13- हरसिद्धि (अ0जा0)	भूमि सुधार उप-समाहर्ता, अरेराज
14- गोविन्दगंज	अनुमंडल पदाधिकारी, अरेराज
15- केसरिया	उप विकास आयुक्त, पूर्वी चम्पारण, मोतिहारी
16- कल्याणपुर	भूमि सुधार उप-समाहर्ता, चकिया
17- पिपरा	अनुमंडल पदाधिकारी, चकिया
18- मधुबन	अनुमंडल पदाधिकारी, पकडीदयाल
19- मोतिहारी	भूमि सुधार उप-समाहर्ता, मोतिहारी सदर
20- चिरैया	भूमि सुधार उप-समाहर्ता, सिकरहना
21- ढाका	अनुमंडल पदाधिकारी, सिकरहना
22- शिवहर	अनुमंडल पदाधिकारी, शिवहर
23- रीगा	भूमि सुधार उप-समाहर्ता, सीतामढ़ी सदर
24- बथनाहा (अ0जा0)	अपर समाहर्ता, विभागीय जाँच, सीतामढ़ी

विधान-सभा निर्वाचन क्षेत्र का क्रमांक एवं नाम	निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी
1	2
25- परिहार	उप-विकास आयुक्त, सीतामढ़ी
26- सुरसंड	जिला पंचयात राज पदाधिकारी, सीतामढ़ी
27- बाजपट्टी	अनुमंडल पदाधिकारी, पुपरी
28- सीतामढ़ी	अनुमंडल पदाधिकारी, सीतामढ़ी सदर
29- रून्नीसैदपुर	अपर समाहर्ता, सीतामढ़ी
30- बेलसंड	अनुमंडल पदाधिकारी, बेलसंड
31- हरलाखी	भूमि सुधार उप-समाहर्ता, बेनीपट्टी
32- बेनीपट्टी	अनुमंडल पदाधिकारी, बेनीपट्टी
33- खजौली	अनुमंडल पदाधिकारी, जयनगर
34- बाबूबरही	भूमि सुधार उप-समाहर्ता, सदर मधुबनी
35- बिस्फी	उप विकास आयुक्त, मधुबनी
36- मधुबनी	अनुमंडल पदाधिकारी, सदर मधुबनी
37- राजनगर (अ0जा0)	भूमि सुधार उप समाहर्ता, झंझारपुर
38- झंझारपुर	अनुमंडल पदाधिकारी, झंझारपुर
39- फुलपरास	अनुमंडल पदाधिकारी, फुलपरास
40- लौकहा	भूमि सुधार उप-समाहर्ता, फुलपरास
41- निर्मली	अनुमंडल पदाधिकारी, निर्मली
42- पिपरा	भूमि सुधार उप-समाहर्ता, सुपौल
43- सुपौल	अनुमंडल पदाधिकारी, सुपौल
44- त्रिवेणीगंज (अ0जा0)	अनुमंडल पदाधिकारी, त्रिवेणीगंज
45- छातापुर	अनुमंडल पदाधिकारी, वीरपुर
46- नरपतगंज	भूमि सुधार उप-समाहर्ता, फारबिसगंज
47- रानीगंज (अ0जा0)	भूमि सुधार उप-समाहर्ता, अररिया
48- फारबिसगंज	अनुमंडल पदाधिकारी, फारबिसगंज
49- अररिया	अनुमंडल पदाधिकारी, अररिया
50- जोकीहाट	अपर समाहर्ता, अररिया
51- सिकटी	उप विकास आयुक्त, अररिया
52- बहादुरगंज	भूमि सुधार उप-समाहर्ता, किशनगंज
53- ठाकुरगंज	उप विकास आयुक्त, किशनगंज
54- किशनगंज	अनुमंडल पदाधिकारी, किशनगंज
55- कोचाधामन	अपर समाहर्ता, किशनगंज
56- अमौर	भूमि सुधार उप-समाहर्ता, बायसी
57- बायसी	अनुमंडल पदाधिकारी, बायसी

विधान-सभा निर्वाचन क्षेत्र का क्रमांक एवं नाम	निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी
1	2
58- कसबा	भूमि सुधार उप-समाहर्ता, सदर पूर्णियाँ
59- बनमनखी (अ0जा0)	अनुमंडल पदाधिकारी, बनमनखी
60- रूपौली	भूमि सुधार उप-समाहर्ता, धमदाहा
61- धमदाहा	अनुमंडल पदाधिकारी, धमदाहा
62- पूर्णियाँ	अनुमंडल पदाधिकारी, सदर पूर्णियाँ
63- कटिहार	अनुमंडल पदाधिकारी, कटिहार
64- कदवा	भूमि सुधार उप-समाहर्ता, बारसोई
65- बलरामपुर	अनुमंडल पदाधिकारी, बारसोई
66- प्राणपुर	उप विकास-आयुक्त, कटिहार
67- मनिहारी (अ0ज0जा0)	अनुमंडल पदाधिकारी, मनिहारी
68- बरारी	भूमि सुधार उप-समाहर्ता, कटिहार
69- कोढ़ा (अ0जा0)	अपर समाहर्ता, कटिहार
70- आलमनगर	भूमि सुधार उप-समाहर्ता, उदाकिशुनगंज
71- बिहारीगंज	अनुमंडल पदाधिकारी, उदाकिशुनगंज
72- सिंहेश्वर (अ0जा0)	भूमि सुधार उप-समाहर्ता, मधेपुरा
73- मधुपेरा	अनुमंडल पदाधिकारी, मधेपुरा
74- सोनवर्षा (अ0जा0)	भूमि सुधार उप-समाहर्ता, सदर सहरसा
75- सहरसा	अनुमंडल पदाधिकारी, सदर सहरसा
76- सिमरी बख्तियारपुर	अनुमंडल पदाधिकारी, सिमरी बख्तियारपुर
77- महिषी	अपर समाहर्ता, सहरसा
78- कुशेश्वरस्थान (अ0जा0)	अनुमंडल पदाधिकारी, बिरौल
79- गौड़ाबोराम	भूमि सुधार उप-समाहर्ता, बिरौल
80- बेनीपुर	अनुमंडल पदाधिकारी, बेनीपुर
81- अलीनगर	भूमि सुधार उप-समाहर्ता, बेनीपुर
82- दरभंगा ग्रामीण	जिला भू-अर्जन पदाधिकारी, दरभंगा
83- दरभंगा	अनुमंडल पदाधिकारी, सदर दरभंगा
84- हायाघाट	अपर समाहर्ता, दरभंगा
85- बहादुरपुर	अपर समाहर्ता, विभागीय जांच, दरभंगा
86- केवटी	भूमि सुधार उप-समाहर्ता, सदर दरभंगा
87- जाले	उप विकास आयुक्त, दरभंगा
88- गायघाट	वरीय उप समाहर्ता, प्रभारी स्थापना, मुजफ्फरपुर
89- औराई	जिला पंचायत राज पदाधिकारी, मुजफ्फरपुर

विधान-सभा निर्वाचन क्षेत्र का क्रमांक एवं नाम	निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी
1	2
90- मीनापुर	निदेशक, राष्ट्रीय नियोजन कार्यक्रम, जिला ग्रामीण विकास अभिकरण, मुजफ्फरपुर
91- बोचहाँ (अ0जा0)	वरीय उप समाहर्ता, प्रभारी राजस्व, मुजफ्फरपुर
92- सकरा (अ0जा0)	भूमि सुधार उप-समाहर्ता, पूर्वी मुजफ्फरपुर
93- कुढ़नी	भूमि सुधार उप-समाहर्ता, पश्चिमी मुजफ्फरपुर
94- मुजफ्फरपुर	अनुमंडल पदाधिकारी, पूर्वी मुजफ्फरपुर
95- काँटी	अपर समाहर्ता, आपदा प्रबंधन, मुजफ्फरपुर
96- बरुराज	उप विकास-आयुक्त, मुजफ्फरपुर
97- पारु	अनुमंडल पदाधिकारी, पश्चिमी मुजफ्फरपुर
98- साहेबगंज	जिला भू-अर्जन पदाधिकारी, मुजफ्फरपुर
99- बैकुण्ठपुर	भूमि सुधार उप-समाहर्ता, गोपालगंज
100- बरौली	उप विकास आयुक्त, गोपालगंज
101- गोपालगंज	अनुमंडल पदाधिकारी, गोपालगंज
102- कुचायकोट	अपर समाहर्ता, गोपालगंज
103- भोरे (अ0जा0)	भूमि सुधार उप-समाहर्ता, हथुआ
104- हथुआ	अनुमंडल पदाधिकारी, हथुआ
105- सिवान	अपर समाहर्ता, सिवान
106- जीरादेई	भूमि सुधार उप-समाहर्ता, सिवान
107- दरौली (अ0जा0)	जिला पंचायत राज पदाधिकारी, सिवान
108- रघुनाथपुर	अनुमंडल पदाधिकारी, सिवान
109- दरौंदा	उप विकास आयुक्त, सिवान
110- बड़हरिया	जिला भू-अर्जन पदाधिकारी, सिवान
111- गोरेयाकोठी	भूमि सुधार उप-समाहर्ता, महाराजगंज
112- महाराजगंज	अनुमंडल पदाधिकारी, महाराजगंज
113- एकमा	जिला पंचायत राज पदाधिकारी, सारण
114- मांझी	भूमि सुधार उप-समाहर्ता, सदर छपरा
115- बनियापुर	उप विकास-आयुक्त, सारण
116- तरैया	भूमि सुधार उप-समाहर्ता, मढ़ौरा
117- मढ़ौरा	अनुमंडल पदाधिकारी, मढ़ौरा
118- छपरा	अनुमंडल पदाधिकारी, सदर छपरा
119- गरखा (अ0जा0)	अपर समाहर्ता, विभागीय जाँच, सारण, छपरा

विधान-सभा निर्वाचन क्षेत्र का क्रमांक एवं नाम	निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी
1	2
120- अमनौर	निदेशक, लेखा प्रशासन एवं स्व नियोजन, जिला ग्रामीण विकास अभिकरण, सारण, छपरा
121- परसा	भूमि सुधार उप-समाहर्ता, सोनपुर
122- सोनपुर	अनुमंडल पदाधिकारी, सोनपुर
123- हाजीपुर	अपर समाहर्ता, वैशाली, हाजीपुर
124- लालगंज	भूमि सुधार उप-समाहर्ता, हाजीपुर
125- वैशाली	उप विकास आयुक्त, वैशाली, हाजीपुर
126- महुआ	अनुमंडल पदाधिकारी, महुआ
127- राजापाकर (अ0जा0)	भूमि सुधार उप-समाहर्ता, महनार
128- राघोपुर	अनुमंडल पदाधिकारी, हाजीपुर
129- महनार	अनुमंडल पदाधिकारी, महनार
130- पातेपुर (अ0जा0)	भूमि सुधार उप-समाहर्ता, महुआ
131- कल्याणपुर (अ0जा0)	अनुमंडल पदाधिकारी, समस्तीपुर
132- वारिसनगर	जिला पंचायत राज पदाधिकारी, समस्तीपुर
133- समस्तीपुर	उप विकास आयुक्त, समस्तीपुर
134- उजियारपुर	अनुमंडल पदाधिकारी, दलसिंहसराय
135- मोरवा	भूमि सुधार उप-समाहर्ता, समस्तीपुर
136- सरायरंजन	निदेशक, लेखा प्रशासन एवं स्व नियोजन, जिला ग्रामीण विकास अभिकरण, समस्तीपुर
137- मोहिउद्दीननगर	अनुमंडल पदाधिकारी, पटोरी
138- विभूतिपुर	भूमि सुधार उप-समाहर्ता, दलसिंहसराय
139- रोसड़ा (अ0जा0)	अनुमंडल पदाधिकारी, रोसड़ा
140- हसनपुर	भूमि सुधार उप-समाहर्ता, रोसड़ा
141- चेरिया बरियारपुर	अनुमंडल पदाधिकारी, मंझौल
142- बछवाड़ा	भूमि सुधार उप-समाहर्ता, तेघड़ा
143- तेघड़ा	अनुमंडल पदाधिकारी, तेघड़ा
144- मटिहानी	भूमि सुधार उप-समाहर्ता, बेगूसराय
145- साहेबपुर कमाल	अनुमंडल पदाधिकारी, बलिया
146- बेगूसराय	अनुमंडल पदाधिकारी, बेगूसराय
147- बखरी (अ0जा0)	अनुमंडल पदाधिकारी, बखरी
148- अलौली (अ0जा0)	अनुमंडल पदाधिकारी, खगड़िया
149- खगड़िया	भूमि सुधार उप-समाहर्ता, खगड़िया

विधान-सभा निर्वाचन क्षेत्र का क्रमांक एवं नाम	निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी
1	2
150- बेलदौर	भूमि सुधार उप-समाहर्ता, गोगरी
151- परबत्ता	अनुमंडल पदाधिकारी, गोगरी
152- बिहपुर	भूमि सुधार उप-समाहर्ता, नवगछिया
153- गोपालपुर	अनुमंडल पदाधिकारी, नवगछिया
154- पीरपैती (अ0जा0)	भूमि सुधार उप-समाहर्ता, कहलगांव
155- कहलगांव	अनुमंडल पदाधिकारी, कहलगांव
156- भागलपुर	अनुमंडल पदाधिकारी, सदर भागलपुर
157- सुलतानगंज	भूमि सुधार उप-समाहर्ता, सदर भागलपुर
158- नाथनगर	अपर समाहर्ता, भागलपुर
159- अमरपुर	अपर समाहर्ता, बांका
160- धौरैया (अ0जा0)	भूमि सुधार उप-समाहर्ता, बांका
161- बाँका	अनुमंडल पदाधिकारी, बांका
162- कटोरिया (अ0ज0जा0)	जिला पचायत राज पदाधिकारी, बांका
163- बेलहर	उप विकास आयुक्त, बांका
164- तारापुर	अनुमंडल पदाधिकारी, तारापुर
165- मुंगेर	अनुमंडल पदाधिकारी, सदर मुंगेर
166- जमालपुर	भूमि सुधार उप-समाहर्ता, सदर मुंगेर
167- सूर्यगढ़ा	भूमि सुधार उप-समाहर्ता, लखीसराय
168- लखीसराय	अनुमंडल पदाधिकारी, लखीसराय
169- शेखपुरा	अनुमंडल पदाधिकारी, शेखपुरा
170- बरबीघा	भूमि सुधार उप-समाहर्ता, शेखपुरा
171- अस्थायी	भूमि सुधार उप-समाहर्ता, बिहारशरीफ
172- बिहारशरीफ	अनुमंडल पदाधिकारी, बिहारशरीफ
173- राजगीर (अ0जा0)	अनुमंडल पदाधिकारी, राजगीर
174- इस्लामपुर	भूमि सुधार उप-समाहर्ता, हिलसा
175- हिलसा	अनुमंडल पदाधिकारी, हिलसा
176- नालंदा	अपर समाहर्ता, नालन्दा
177- हरनौत	उप विकास आयुक्त, नालन्दा
178- मोकामा	अनुमंडल पदाधिकारी, बाढ़
179- बाढ़	भूमि सुधार उप-समाहर्ता, बाढ़
180- बख्तियारपुर	उप विकास आयुक्त, पटना

विधान-सभा निर्वाचन क्षेत्र का क्रमांक एवं नाम	निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी
1	2
181- दीघा	अनुमंडल पदाधिकारी, पटना सदर
182- बाँकीपुर	भूमि सुधार उप-समाहर्ता, पटना सदर
183- कुम्हरार	विशिष्ट अनुभाजन पदाधिकारी, पटना
184- पटना साहिब	अनुमंडल पदाधिकारी, पटना सिटी
185- फतुहा	भूमि सुधार उप-समाहर्ता, पटना सिटी
186- दानापुर	अनुमंडल पदाधिकारी, दानापुर
187- मनेर	भूमि सुधार उप-समाहर्ता, दानापुर
188- फुलवारी (अ0जा0)	अपर समाहर्ता, विभागीय जाँच, पटना
189- मसौढ़ी (अ0जा0)	अनुमंडल पदाधिकारी, मसौढ़ी
190- पालीगंज	अनुमंडल पदाधिकारी, पालीगंज
191- बिक्रम	भूमि सुधार उप-समाहर्ता, पालीगंज
192- संदेश	अनुमंडल पदाधिकारी, आरा सदर
193- बड़हरा	अपर समाहर्ता, भोजपुर
194- आरा	भूमि सुधार उप-समाहर्ता, आरा सदर
195- अगिआँव (अ0जा0)	भूमि सुधार उप-समाहर्ता, पीरो
196- तरारी	अनुमंडल पदाधिकारी, पीरो
197- जगदीशपुर	अनुमंडल पदाधिकारी, जगदीशपुर
198- शाहपुर	भूमि सुधार उप-समाहर्ता, जगदीशपुर
199- ब्रहमपुर	भूमि सुधार उप-समाहर्ता, डुमराँव
200- बक्सर	अनुमंडल पदाधिकारी, बक्सर
201- डुमराँव	अनुमंडल पदाधिकारी, डुमराँव
202- राजपुर (अ0जा0)	भूमि सुधार उप-समाहर्ता, बक्सर
203- रामगढ़	भूमि सुधार उप-समाहर्ता, मोहनियाँ
204- मोहनियाँ (अ0जा0)	अनुमंडल पदाधिकारी, मोहनियाँ
205- भभुआ	अनुमंडल पदाधिकारी, भभुआ
206- चैनपुर	भूमि सुधार उप-समाहर्ता, भभुआ
207- चेनारी (अ0जा0)	अपर समाहर्ता, रोहतास
208- सासाराम	अनुमंडल पदाधिकारी, सासाराम
209- करगहर	भूमि सुधार उप-समाहर्ता, सासाराम
210- दिनारा	उप समाहर्ता भूमि सुधार, बिक्रमगंज
211- नोखा	उप विकास आयुक्त, रोहतास

विधान-सभा निर्वाचन क्षेत्र का क्रमांक एवं नाम	निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी
1	2
212- डिहरी	अनुमंडल पदाधिकारी, डिहरी
213- काराकाट	अनुमंडल पदाधिकारी, बिक्रमगंज
214- अरवल	अनुमंडल पदाधिकारी, अरवल
215- कुर्या	भूमि सुधार उप-समाहर्ता, अरवल
216- जहानाबाद	अनुमंडल पदाधिकारी, जहानाबाद
217- घोसी	भूमि सुधार उप-समाहर्ता, जहानाबाद
218- मखदुमपुर (अ0जा0)	अपर समाहर्ता, जहानाबाद
219- गोह	अनुमंडल पदाधिकारी, दाउदनगर
220- ओबरा	भूमि सुधार उप-समाहर्ता, दाउदनगर
221- नवीनगर	भूमि सुधार उप-समाहर्ता, औरंगाबाद
222- कुटुम्बा (अ0जा0)	अपर समाहर्ता, औरंगाबाद
223- औरंगाबाद	अनुमंडल पदाधिकारी, औरंगाबाद
224- रफीगंज	उप विकास आयुक्त, औरंगाबाद
225- गुरुआ	निदेशक, लेखा प्रशासन एवं स्व0 नियोजन, जिला ग्रामीण विकास अभिकरण, गया
226- शेरघाटी	अनुमंडल पदाधिकारी, शेरघाटी
227- इमामगंज (अ0जा0)	अपर समाहर्ता, विभागीय जाँच, गया
228- बाराचट्टी (अ0जा0)	भूमि सुधार उप-समाहर्ता, शेरघाटी, गया
229- बोघ गया (अ0जा0)	अपर समाहर्ता, गया
230- गया टाउन	अनुमंडल पदाधिकारी, सदर गया
231- टिकारी	अनुमंडल पदाधिकारी, टिकारी, गया
232- बेलागंज	उप विकास आयुक्त, गया
233- अतरी	अनुमंडल पदाधिकारी, नीमचक बथानी, गया
234- वजीरगंज	भूमि सुधार उप-समाहर्ता, गया सदर
235- रजौली (अ0जा0)	अनुमंडल पदाधिकारी, रजौली
236- हिसुआ	अपर समाहर्ता, नवादा
237- नवादा	अनुमंडल पदाधिकारी, नवादा
238- गोविन्दपुर	उप विकास आयुक्त, नवादा
239- वारिसलीगंज	भूमि सुधार उप-समाहर्ता, नवादा
240- सिकन्दरा (अ0जा0)	अपर समाहर्ता, जमुई
241- जमुई	अनुमंडल पदाधिकारी, जमुई
242- झांझा	उप विकास आयुक्त, जमुई

विधान-सभा निर्वाचन क्षेत्र का क्रमांक एवं नाम	निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी
1	2
243- चकाई	भूमि सुधार उप-समाहर्ता, जमुई

आदेश से,
आर० के० श्रीवास्तव,
प्रधान सचिव।

ELECTION COMMISSION OF INDIA

NOTIFICATION

*Nirvachan Sadan, Ashoka Road, New Delhi-110001 Dated : 3rd November, 2014/
12 Kartika, 1936 (Saka)*

No. 429/BR/2014(1)—In pursuance of the provisions of sub-section (1) of section 13B of the representation of People Act, 1950 (43 of 1950), and in supersession of its notification No. 429/BR/2008(1), dated 28th April 2010 as amended from time to time, the Election Commission of India hereby designates, in consultation with the Government of Bihar, the officer of the Government specified in column 2 of the Table below, as the Electoral Registration Officer of the Assembly Constituency in the State of Bihar, as specified in column 1 of the Table against such officer:—

TABLE

No. and Name of Assembly Constituency	Electoral Registration Officer
1	2
1-Valmiki Nagar	Director Accounts Administration and Self Employment, District Rural Development Agency, Bettiah
2-Ramnagar (SC)	Deputy Collector, Land Reform, Bagaha
3-Narkatiaganj	Sub Divisional Officer, Narkatiaganj
4-Bagaha	Sub Divisional Officer, Bagaha
5-Lauriya	Additional Collector, Departmental Enquiry, West Champaran, Bettiah
6-Nautan	Deputy Collector, Land Reform, Bettiah
7-Chanpatia	Deputy Development Commissioner, West Champaran, Bettiah
8-Bettiah	Sub Divisional Officer, Bettiah
9-Sikta	Deputy Collector, Land Reform, Narkatiaganj
10-Raxaul	Sub Divisional Officer, Raxaul
11-Sugauli	Sub Divisional Officer, Motihari Sadar
12-Narkatia	Deputy Collector, Land Reform, Raxaul
13-Harsidhi (SC)	Deputy Collector, Land Reform, Areraj
14-Govindganj	Sub Divisional Officer, Areraj
15-Kesaria	Deputy Development Commissioner, East Champaran, Motihari
16-Kalyanpur	Deputy Collector, Land Reform, Chakia
17-Pipra	Sub Divisional Officer, Chakia

No. and Name of Assembly Constituency	Electoral Registration Officer
1	2
18-Madhuban	Sub Divisional Officer, Pakridayal
19-Motihari	Deputy Collector, Land Reform, Motihari Sadar
20-Chiraia	Deputy Collector, Land Reform, Sikrahna
21-Dhaka	Sub Divisional Officer, Sikrahna
22-Sheohar	Sub Divisional Officer, Sheohar
23-Riga	Deputy Collector, Land Reform, Sitamarhi Sadar
24-Bathnaha (SC)	Additional Collector, Departmental Enquiry, Sitamarhi
25-Parihar	Deputy Development Commissioner, Sitamarhi
26-Sursand	District Panchayat Raj Officer, Sitamarhi
27-Bajpatti	Sub Divisional Officer, Pupri
28-Sitamarhi	Sub Divisional Officer, Sitamarhi Sadar
29-Runnisaidpur	Additional Collector, Sitamarhi
30-Belsand	Sub Divisional Officer, Belsand
31-Harlakhi	Deputy Collector, Land Reform, Benipatti
32- Benipatti	Sub Divisional Officer, Benipatti
33-Khajauli	Sub Divisional Officer, Jaynagar
34-Babubarhi	Deputy Collector, Land Reform, Sadar Madhubani
35-Bisfi	Deputy Development Commissioner, Madhubani
36-Madhubani	Sub Divisional Officer, Sadar Madhubani
37-Rajnagar (SC)	Deputy Collector, Land Reform, Jhanjharpur
38-Jhanjharpur	Sub Divisional Officer, Jhanjharpur
39-Phulparas	Sub Divisional Officer, Phulparas
40-Laukaha	Deputy Collector, Land Reform, Phulparas
41-Nirmali	Sub Divisional Officer, Nirmali
42-Pipra	Deputy Collector, Land Reform, Supaul
43-Supaul	Sub Divisional Officer, Supaul
44-Triveniganj (SC)	Sub Divisional Officer, Triveniganj
45-Chhatapur	Sub Divisional Officer, Birpur
46-Narpatganj	Deputy Collector, Land Reform, Forbesganj
47-Raniganj (SC)	Deputy Collector, Land Reform, Araria
48-Forbesganj	Sub Divisional Officer, Forbesganj
49-Araria	Sub Divisional Officer, Araria
50-Jokihat	Additional Collector, Araria
51-Sikti	Deputy Development Commissioner, Araria
52-Bahadurganj	Deputy Collector, Land Reform, Kishanganj
53-Thakurganj	Deputy Development Commissioner, Kishanganj
54-Kishanganj	Sub Divisional Officer, Kishanganj
55-Kochadhaman	Additional Collector, Kishanganj
56-Amour	Deputy Collector, Land Reform, Baisi

No. and Name of Assembly Constituency	Electoral Registration Officer
1	2
57-Baisi	Sub Divisional Officer, Baisi
58-Kasba	Deputy Collector, Land Reform, Sadar Purnia
59-Banmankhi (SC)	Sub Divisional Officer, Banmankhi
60-Rupauli	Deputy Collector, Land Reform, Dhamdaha
61-Dhamdaha	Sub Divisional Officer, Dhamdaha
62-Purnia	Sub Divisional Officer, Sadar Purnia
63-Katihar	Sub Divisional Officer, Katihar
64-Kadwa	Deputy Collector, Land Reform, Barsoi
65-Balrampur	Sub Divisional Officer, Barsoi
66-Pranpur	Deputy Development Officer, Katihar
67-Manihari (ST)	Sub Divisional Officer, Manihari
68-Barari	Deputy Collector, Land Reform, Katihar
69-Korha (SC)	Additional Collector, Katihar
70-Alamnagar	Deputy Collector, Land Reform, Udakishunganj
71-Bihari ganj	Sub Divisional Officer, Udakishunganj
72-Singheshwar (SC)	Deputy Collector, Land Reform, Madhepura
73-Madhepura	Sub Divisional Officer, Madhepura
74-Sonbarsha (SC)	Deputy Collector, Land Reform, Sadar Saharsa
75-Saharsa	Sub Divisional Officer, Sadar Saharsa
76-Simri Bakhtiarpur	Sub Divisional Officer, Simri Bakhtiarpur
77-Mahishi	Additional Collector, Saharsa
78-Kusheshwar Asthan (SC)	Sub Divisional Officer, Biraul
79-Gaura Bauram	Deputy Collector, Land Reform, Biraul
80-Benipur	Sub Divisional Officer, Benipur
81-Alinagar	Deputy Collector, Land Reform, Benipur
82-Darbhanga Rural	District Land Acquisition Officer, Darbhanga
83-Darbhanga	Sub Divisional Officer, Sadar Darbhanga
84-Hayaghat	Additional Collector, Darbhanga
85-Bahadurpur	Additional Collector, Departmental, Enquiry, Darbhanga
86-Keoti	Deputy Collector, Land Reform, Sadar Darbhanga
87-Jale	Deputy Development Commissioner, Darbhanga
88-Gaighat	Senior Deputy Collector, Incharge Establishment, Muzaffarpur
89-Aurai	District Panchayat Raj Officer, Muzaffarpur
90-Minapur	Director Accounts Administration and Self Employment, District Rural Development Agency, Muzaffarpur
91-Bochahan (SC)	Senior Deputy Collector, Incharge Revenue, Muzaffarpur

No. and Name of Assembly Constituency	Electoral Registration Officer
1	2
92-Sakra (SC)	Deputy Collector, Land Reform, East Muzaffarpur
93-Kurhani	Deputy Collector, Land Reform, West Muzaffarpur
94-Muzaffarpur	Sub Divisional Officer, East Muzaffarpur
95-Kanti	Additional Collector, Disaster Management, Muzaffarpur
96-Baruraj	Deputy Development Commissioner, Muzaffarpur
97-Paroo	Sub Divisional Officer, West Muzaffarpur
98-Sahebganj	District Land Acquisition Officer, Muzaffarpur
99-Baikunthpur	Deputy Collector, Land Reform, Gopalganj
100-Barauli	Deputy Development Commissioner, Gopalganj
101-Gopalganj	Sub Divisional Officer, Gopalganj
102-Kuchaikote	Additional Collector, Gopalganj
103-Bhore (SC)	Deputy Collector, Land Reform, Hathua
104-Hathua	Sub Divisional Officer, Hathua
105-Siwan	Additional Collector, Siwan
106-Ziradei	Deputy Collector, Land Reform, Siwan
107-Darauli (SC)	District Panchayat Raj Officer, Siwan
108-Raghunathpur	Sub Divisional Officer, Siwan
109-Daraunda	Deputy Development Commissioner, Siwan
110-Barharia	District Land Acquisition Officer, Siwan
111-Goriakothi	Deputy Collector, Land Reform, Maharajganj
112-Maharajganj	Sub Divisional Officer, Maharajganj
113-Ekma	District Panchayat Raj Officer, Saran
114-Manjhi	Deputy Collector, Land Reform, Sadar Chapra
115-Baniapur	Deputy Development Commissioner, Saran
116-Taraiya	Deputy Collector, Land Reform, Marhaura
117-Marhaura	Sub Divisional Officer, Marhaura
118-Chapra	Sub Divisional Officer, Sadar Chapra
119-Garkha (SC)	Additional Collector, Departmental Enquiry, Saran, Chapra
120-Amnour	Director Accounts Administration and Self Employment, District Rural Development Agency, Saran, Chapra
121-Parsa	Deputy Collector, Land Reform, Sonapur
122-Sonapur	Sub Divisional Officer, Sonapur
123-Hajipur	Additional Collector, Vaishali, Hajipur
124-Lalganj	Deputy Collector, Land Reform, Hajipur
125-Vaishali	Deputy Development Commissioner, Vaishali, Hajipur
126-Mahua	Sub Divisional Officer, Mahua
127-Raja Pakar (SC)	Deputy Collector, Land Reform, Mahnar

No. and Name of Assembly Constituency	Electoral Registration Officer
1	2
128-Raghopur	Sub Divisional Officer, Hajipur
129-Mahnar	Sub Divisional Officer, Mahnar
130-Patepur (SC)	Deputy Collector, Land Reform, Mahua
131-Kalyanpur (SC)	Sub Divisional Officer, Samastipur
132-Warisanagar	District Panchayat Raj Officer, Samastipur
133-Samastipur	Deputy Development Commissioner, Samastipur
134-Ujiarpur	Sub Divisional Officer, Dalsingsarai
135-Morwa	Deputy Collector, Land Reform, Samastipur
136-Sarairanjan	Director Accounts Administration and Self Employment, District Rural Development Agency, Samastipur
137-Mohiuddinnagar	Sub Divisional Officer, Patori
138-Bibhutipur	Deputy Collector, Land Reform, Dalsingsarai
139-Rosera (SC)	Sub Divisional Officer, Rosera
140-Hasanpur	Deputy Collector, Land Reform, Rosera
141-Cheria Bariarpur	Sub Divisional Officer, Manjhaule
142-Bachhwara	Deputy Collector, Land Reform, Teghra
143-Teghra	Sub Divisional Officer, Teghra
144-Matihani	Deputy Collector, Land Reform, Begusarai
145-Sahebpur Kamal	Sub Divisional Officer, Balia
146-Begusarai	Sub Divisional Officer, Begusarai
147-Bakhri (SC)	Sub Divisional Officer, Bakhri
148-Alauli (SC)	Sub Divisional Officer, Khagaria
149-Khagaria	Deputy Collector, Land Reform, Khagaria
150-Beldaur	Deputy Collector, Land Reform, Gogri
151-Parbatta	Sub Divisional Officer, Gogri
152-Bihpur	Deputy Collector, Land Reform, Naugachia
153-Gopalpur	Sub Divisional Officer, Naugachia
154-Pirpanti (SC)	Deputy Collector, Land Reform, Kahalgaon
155-Kahalgaon	Sub Divisional Officer, Kahalgaon
156-Bhagalpur	Sub Divisional Officer, Sadar Bhagalpur
157-Sultanganj	Deputy Collector, Land Reform, Sadar Bhagalpur
158-Nathnagar	Additional Collector, Bhagalpur
159-Amarpur	Additional Collector, Banka
160-Dhoraiya (SC)	Deputy Collector, Land Reform, Banka
161-Banka	Sub Divisional Officer, Banka
162-Katoria (ST)	District Panchayat Raj Officer, Banka
163-Belhar	Deputy Development Commissioner, Banka
164-Tarapur	Sub Divisional Officer, Tarapur
165-Munger	Sub Divisional Officer, Sadar Munger

No. and Name of Assembly Constituency	Electoral Registration Officer
1	2
166-Jamalpur	Deputy Collector, Land Reform, Sadar Munger
167-Suryagarha	Deputy Collector, Land Reform, Lakhisarai
168-Lakhisarai	Sub Divisional Officer, Lakhisarai
169-Sheikhpura	Sub Divisional Officer, Sheikhpura
170-Barbigha	Deputy Collector, Land Reform, Sheikhpura
171-Asthawan	Deputy Collector, Land Reform, Biharsharif
172-Biharsharif	Sub Divisional Officer, Biharsharif
173-Rajgir (SC)	Sub Divisional Officer, Rajgir
174-Islampur	Deputy Collector, Land Reform, Hilsa
175-Hilsa	Sub Divisional Officer, Hilsa
176-Nalanda	Additional Collector, Nalanda
177-Harnaut	Deputy Development Commissioner, Nalanda
178-Mokama	Sub Divisional Officer, Barh
179-Barh	Deputy Collector, Land Reform, Barh
180-Bakhtiarpur	Deputy Development Commissioner, Patna
181-Digha	Sub Divisional Officer, Patna Sadar
182-Bankipur	Deputy Collector, Land Reform, Patna Sadar
183-Kumhrar	Special Rationing Officer, Patna
184-Patna Sahib	Sub Divisional Officer, Patna City
185-Fatuha	Deputy Collector, Land Reform, Patna City
186-Danapur	Sub Divisional Officer, Danapur
187-Maner	Deputy Collector, Land Reform, Danapur
188-Phulwari (SC)	Additional Collector, Departmental Enquiry, Patna
189-Masaurhi (SC)	Sub Divisional Officer, Masaurhi
190-Paliganj	Sub Divisional Officer, Paliganj
191-Bikram	Deputy Collector, Land Reform, Paliganj
192-Sandesh	Sub Divisional Officer, Arrah Sadar
193-Barhara	Additional Collector, Bhojpur
194-Arrah	Deputy Collector, Land Reform, Arrah Sadar
195-Agiaon (SC)	Deputy Collector, Land Reform, Piro
196-Tarari	Sub Divisional Officer, Piro
197-Jagdishpur	Sub Divisional Officer, Jagdishpur
198-Shahpur	Deputy Collector, Land Reform, Jagdishpur
199-Brahampur	Deputy Collector, Land Reform, Dumraon
200-Buxar	Sub Divisional Officer, Buxar
201-Dumraon	Sub Divisional Officer, Dumraon
202-Rajpur (SC)	Deputy Collector, Land Reform, Buxar
203-Ramgarh	Deputy Collector, Land Reform, Mohania
204-Mohania (SC)	Sub Divisional Officer, Mohania

No. and Name of Assembly Constituency	Electoral Registration Officer
1	2
205-Bhabua	Sub Divisional Officer, Bhabua
206-Chainpur	Deputy Collector, Land Reform, Bhabua
207-Chenari (SC)	Additional Collector, Rohtas
208-Sasaram	Sub Divisional Officer, Sasaram
209-Kargahar	Deputy Collector, Land Reform, Sasaram
210-Dinara	Deputy Collector, Land Reform, Bikramganj
211-Nokha	Deputy Development Commissioner, Rohtas
212-Dehri	Sub Divisional Officer, Dehri
213-Karakat	Sub Divisional Officer, Bikramganj
214-Arwal	Sub Divisional Officer, Arwal
215-Kurtha	Deputy Collector, Land Reform, Arwal
216-Jehanabad	Sub Divisional Officer, Jehanabad
217-Ghosi	Deputy Collector, Land Reform, Jehanabad
218-Makhdumpur (SC)	Additional Collector, Jehanabad
219-Goh	Sub Divisional Officer, Daudnagar
220-Obra	Deputy Collector, Land Reform, Daudnagar
221-Nabinagar	Deputy Collector, Land Reform, Aurangabad
222-Kutumba (SC)	Additional Collector, Aurangabad
223-Aurangabad	Sub Divisional Officer, Aurangabad
224-Rafiganj	Deputy Development Commissioner, Aurangabad
225-Gurua	Director Accounts Administration and Self Employment, District Rural Development Agency, Gaya
226-Sherghati	Sub Divisional Officer, Sherghati
227-Imamganj (SC)	Additional Collector, Departmental Enquiry, Gaya
228-Barachatti (SC)	Deputy Collector, Land Reform, Sherghati, Gaya
229-Bodh Gaya (SC)	Additional Collector, Gaya
230-Gaya Town	Sub Divisional Officer, Sadar Gaya
231-Tikari	Sub Divisional Officer, Tikari, Gaya
232-Belaganj	Deputy Development Commissioner, Gaya
233-Atri	Sub Divisional Officer, Neemchak Bathani, Gaya
234-Wazirganj	Deputy Collector, Land Reform, Gaya Sadar
235-Rajauli (SC)	Sub Divisional Officer, Rajauli
236-Hisua	Additional Collector, Nawada
237-Nawada	Sub Divisional Officer, Nawada
238-Gobindpur	Deputy Development Commissioner, Nawada
239-Warsaliganj	Deputy Collector, Land Reform, Nawada
240-Sikandra (SC)	Additional Collector, Jamui
241-Jamui	Sub Divisional Officer, Jamui
242-Jhajha	Deputy Development Commissioner, Jamui

No. and Name of Assembly Constituency	Electoral Registration Officer
1	2
243-Chakai	Deputy Collector, Land Reform, Jamui

By Order,
R. K. SRIVASTAVA,
Principal Secretary.

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 949-571+300-डी0टी0पी0।
Website: <http://egazette.bih.nic.in>